



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 306 राँची, गुरुवार,

4 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

2 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-86/2017-1553 (HRMS)-- श्री अविनाश पूर्णेन्दु, झां०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गया), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3250, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत निबंधन, Geo Tag एवं स्वीकृत लाभुकों का FTO Sign में कतिपय विलंब तथा मनरेगा योजना में Delay Payment मानव दिवस सृजन, परिसम्पत्ति सृजन, लंबित योजना का बंद करने, जॉब कार्ड Verification DBT एवं डोभा निर्माण लक्ष्य के अनुरूप नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8340, दिनांक 24.07.2017 द्वारा श्री पूर्णेन्दु से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री पूर्णेन्दु के पत्रांक- 774/वि०, दिनांक 04.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री पूर्णेन्दु के स्पष्टीकरण पर विभागीय विभागीय पत्रांक-7181, दिनांक 24.09.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-671, दिनांक 12.02.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री पूर्णेन्दु के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

अतः समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अविनाश पूर्णेन्दु, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | AVINASH PURNENDU 110081165716 | श्री अविनाश पूर्णेन्दु, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गया), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज को आरोप मुक्त किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
